



## कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 13.08.2022

### वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी उपलब्धि

- ❖ NEET सॉल्वर गैंग की सफलतापूर्वक विवेचना संपादित करने वाले विवेचक को मिला केंद्रीय गृह मंत्री का एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल ।
- ❖ गत वर्ष जुलाई के महीने में सारनाथ थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा ।
- ❖ पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश के निर्देशन में उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी ने संपादित की थी विवेचना ।
- ❖ अंतरराज्यीय सॉल्वर गिरोह के सरगना नीलेश ऊर्फ पीके सहित दर्जनों अपराधियों को भेजा गया था जेल ।
- ❖ क्राइम ब्रांच के इंसपेक्टर अंजनी कुमार पांडेय ने इस केस के शातिरों की गिरफ्तारी में किया था महत्वपूर्ण योगदान ।
- ❖ अभी भी गैंगस्टर अधिनियम में जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं ये शातिर दिमाग बदमाश ।
- ❖ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने वाली तफ्तीश को मिला यह सम्मान ।
- ❖ वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कामयाबी ।

- ❖ 15 अगस्त के अवसर पर हुई यह घोषणा कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के लिए यह गौरव का विषय ।
- ❖ Award of "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation", for 2022 से सम्मानित किए जायेंगे उप निरीक्षक सूरज तिवारी।
- ❖ वर्तमान में चौकी प्रभारी नाटी इमली थाना चेतगंज के पद पर तैनात हैं SI सूरज तिवारी।

अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा-2021 में साल्वरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर एम0बी0बी0एस0 में दाखिला कराने वाले अन्तरराज्यीय साल्वर गैंग के विरूद्ध थाना सारनाथ पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण एवं साल्वर गैंग के सरगना एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी नीलेश उर्फ पी0के0 सहित उसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी किये जाने, साथ ही साथ अभियोग की विवेचना में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस एवं अन्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये जिससे पूरे भारत में फैले उक्त गैंग की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई तथा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोह को जड़ से समाप्त हो सका । अतः आज दिनांक 13.08.2022 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय व विवेचक उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई । उक्त विवेचना को "Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation" for 2022 से सम्मानित किया गया है ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस आयुक्त,  
वाराणसी।